

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 302]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 जुलाई 2014—आषाढ़ 27, शक 1936

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 जुलाई 2014

क्र. एफ-22-22-2013-आठ.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 65 की उपधारा (1) तथा धारा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 19-06-2014 को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 55-क में,—

(1) सारणी के नीचे, अनुक्रमांक 4 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“5. 1010, 1011, 1112, 1212, 1213, 1221, 1313, 1314, 1331, 1414, 1415, 1515, 1516, 1616, 1617, 1661, 1717, 1718, 1771, 1818, 1819, 1919, 1920, 1991, 2020, 2021, 2121, 2122, 2223, 2323, 2324, 2424, 2425, 2525, 2526, 2626, 2627, 2727, 2728, 2828, 2829, 2929, 2930, 3030, 3031, 3131, 3132, 3232, 3233, 3334, 3434, 3435, 3535, 3536, 3636, 3637, 3737, 3738, 3838, 3839, 3939, 3940, 4040, 4041, 4141, 4142, 4242, 4243, 4343, 4344, 4445, 4545, 4546, 4554, 4646, 4647, 4747, 4748, 4848, 4849, 4949, 4950, 5050, 5051, 5151, 5152, 5252, 5253, 5353, 5445, 5454, 5455, 5556, 5656, 5657, 5757, 5758, 5858, 5859, 5959, 5960, 6060, 6061, 6161, 6162, 6262, 6263, 6363, 6364, 6464, 6465, 6565, 6566, 6567, 6667, 6767, 6768, 6868, 6869, 6969, 6970, 7070, 7071, 7171, 7227, 7272, 7273, 7373, 7374, 7474, 7475, 7575, 7576, 7676, 7677, 7778, 7878, 7879, 7979, 7980, 8080, 8081, 8181, 8182, 8282, 8283, 8383, 8384, 8484, 8485, 8585, 8586, 8686, 8687, 8787, 8788, 8889, 8989, 8990, 9091, 9099, 9191, 9192, 9292, 9293, 9393, 9394, 9494, 9495, 9595, 9596, 9696, 9697, 9797, 9798, 9898, 9899, 9909, एवं 9990.

टिप्पणी.—उपर्युक्त पंजीयन नंबरों के आरक्षण के लिए, कालम (3) तथा (4) में विनिर्दिष्ट आधार मूल्य, सारणी के अनुक्रमांक 4 के अनुसार होगा.”

(2) उपनियम 3 के खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“इस प्रक्रिया के अधीन, प्रत्येक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय/सहायक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय/जिला परिवहन कार्यालय में प्रचलित श्रंखलाओं में उपलब्ध ऐसे समस्त नम्बरों हेतु, जो सारणी से भिन्न हैं, आवेदक, आरक्षण के लिए “प्रथम आओ प्रथम पाओ के सिद्धांत” के आधार पर निम्नलिखित फीस का भुगतान करने के पश्चात् आवेदन कर सकेगा.”.

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1. दो तथा तीन पहियां वाहनों के लिए | रु. 2000-00 |
| 2. अन्य वाहनों के लिए | रु. 5000-00 |

No. F-22-22-2013-VIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 65 and Section 211 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government, hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Motor Vehicles Rules, 1994, the same having been previously published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary) dated 19-6-2014, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 55A,—

(1) under the table, after serial number 4, the following serial number shall be inserted, namely:—

“5. 1010, 1011, 1112, 1212, 1213, 1221, 1313, 1314, 1331, 1414, 1415, 1515, 1516, 1616, 1617, 1661, 1717, 1718, 1771, 1818, 1819, 1919, 1920, 1991, 2020, 2021, 2121, 2122, 2223, 2323, 2324, 2424, 2425, 2525, 2526, 2626, 2627, 2727, 2728, 2828, 2829, 2929, 2930, 3030, 3031, 3131, 3132, 3232, 3233, 3334, 3434, 3435, 3535, 3536, 3636, 3637, 3737, 3738, 3838, 3839, 3939, 3940, 4040, 4041, 4141, 4142, 4242, 4243, 4343, 4344, 4445, 4545, 4546, 4554, 4646, 4647, 4747, 4748, 4848, 4849, 4949, 4950, 5050, 5051, 5151, 5152, 5252, 5253, 5353, 5445, 5454, 5455, 5556, 5656, 5657, 5757, 5758, 5858, 5859, 5959, 5960, 6060, 6061, 6161, 6162, 6262, 6263, 6363, 6364, 6464, 6465, 6565, 6566, 6567, 6667, 6767, 6768, 6868, 6869, 6969, 6970, 7070, 7071, 7171, 7227, 7272, 7273, 7373, 7374, 7474, 7475, 7575, 7576, 7676, 7677, 7778, 7878, 7879, 7979, 7980, 8080, 8081, 8181, 8182, 8282, 8283, 8383, 8384, 8484, 8485, 8585, 8586, 8686, 8687, 8787, 8788, 8889, 8989, 8990, 9091, 9099, 9191, 9192, 9292, 9293, 9393, 9394, 9494, 9495, 9595, 9596, 9696, 9697, 9797, 9798, 9898, 9899, 9909, and 9990.

Note.—The base prize specified in column (3) and (4), for the reservation of aforesaid registration numbers shall be in accordance with the serial number 4 of the table.”.

(2) for clause (b) of sub-rule 3, the following clause shall be substituted, namely:—

“(b) Under this process, all such available registration number other than the Table in the prevalent series in each Regional Transport Office/Assistant Regional Transport Office/District Transport Office, the applicant may apply for reservation on the basis of “first come first serve system” after the payment of following fees:—

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1. for two and three wheelers | Rs. 2000-00 |
| 2. for other vehicle | Rs. 5000-00.”. |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद अग्रवाल, प्रमुख सचिव.